



# एक्सीडेंट ट्रैप




हैलो, रिंकी, तुम कहाँ हो? ट्यूशन से लौटने में इतनी देरी क्यों?




हैलो चाची। मैं रवि हूँ। मैं एक लड़की के मोबाइल से बोल रहा हूँ जो दुर्घटना में घायल है और फोन करने में असमर्थ है। एक गाड़ी उसकी स्कूटी को टक्कर मार कर भाग गया और वह नीचे गिर गयी।




ओह नहीं! वह मेरी बेटी रिंकी है। अब वह कहाँ है? क्या आप उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जा सकते हैं? पैसे की चिंता मत करो। हम तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे। कृपया हमारी सहायता करें।




हाँ चाची, मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैंने पहले ही एक निजी एम्बुलेंस बुलाई है और उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। जल्द ही आपको सूचित करेंगे।




ठीक है, ठीक है बेटा। भगवान आपका भला करे। आप बताइए कि आप किस अस्पताल में जा रहे हैं, ताकि हम भी तुरंत वहाँ पहुँच जाएँ।



चाची, एक समस्या है। यह एम्बुलेंस 2000/- का अग्रिम भुगतान चाहता है और वह कहता है कि नजदीकी अस्पताल में आपातकालीन अस्पताल में भर्ती शुल्क 20000/- है।



पैसे के बारे में चिंता मत करो। मुझे जो भी आवश्यक होगा उसका भुगतान करूंगी, लेकिन कृपया इसमें देरी न करो।



हाँ चाची। लेकिन मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। जब तक जब मैं अस्पताल पहुंचूँ, मुझे पेट्टीएम या बैंक खाते में जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दें।



हाँ, ज़रूर।

\* पैसे ट्रांसफर करती है \*



\* तैयार होने के बाद फोन करने की कोशिश करती है\*

हे भगवान! क्या हो रहा है? फोन स्विच ऑफ क्यों है?



\*अनजान नंबर से फोन बजता है\*


हेलो मम्मी, मैं रिंगी बोल रही हूँ। मुझे थोड़ी देरी हो रही है। वास्तव में मेरा मोबाइल खो गया है और अभी आपको देरी के बारे में सूचित करने के लिए एक मित्र के मोबाइल से बोल रही हूँ।



हे भगवान! तुम्हारे मोबाइल से किसी ने बताया कि तुम दुर्घटना में घायल हो। हम इतने चिंतित थे। बेटा, तुम ठीक हो ना?


हां, मम्मी, उसने आपको बेवकूफ बनाया! क्या उसने अस्पताल में भर्ती होने के लिए पैसे मांगे?





हाँ, मैंने भर्ती शुल्क और एम्बुलेंस शुल्क के रूप में 22000/- ट्रांसफर कर दिया।

ओह माँ! उसने आपको बेवकूफ बनाया। माँ, अगर वह मेरे मोबाइल से बोल रहा था थी, तो आपको उससे वीडियो चैट करने और घायल व्यक्ति को दिखाने के लिए कहना चाहिए था?



माँ, ये धोखेबाज घबराहट का लाभ उठाते हैं। आपको कभी भी घबराहट में मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। थोड़े से बढ़ी तत्परतासे आप चिंता और धन की हानि से बच सकती थी।

**धन्यवाद!!**

दिल्ली पब्लिक स्कूल पुणे की छात्रा, साइबर योद्धा कीशा के द्वारा एक छोटा सा प्रयास।